



K.M. Sugar Mills Ltd.

Factory & Works : P.O. Motinagar-224201, Dist. Ayodhya (U.P.)
Phone : 7571000692, Email : director@kmsugar.com
CIN No.: L15421UP1971PLC003492 GSTIN No.: 09AAACK5545P1ZZ

National Stock Exchange Of India Limited. Exchange Plaza,C-1,Block-G, Bandra Kurla Complex ,Bandra (E), Mumbai-400051 Phone No.022-26598100	Bombay Stock Exchange Limited, 27 th Floor, Phiroze Jeeebhoy Tower, Dalal Street ,Fort ,Mumbai-400001 Phone No.022-22728527 Bandra (E),Mumbai-400051
Scrip Code: INE157h01023	Scrip Code:532673

Dear Sir,

Sub:Announcement under Regulation 30 (LODR)-Newspaper Publication

Pursuant to Regulation 29, 33 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we are pleased to forward herewith the published advertisement of Notice of the 02nd Extra-Ordinary General Meeting of the Company after the dispatch of Notice of EGM in the following newspapers:

1. The Financial Express, New Delhi Edition (English) released on February 16, 2021.
2. Rashtriya Sahara, Kanpur Edition (Hindi) released on February 16, 2021.

You are kindly requested to acknowledge the receipt of the same.

Date: 16-02-2021
Place: Lucknow

For K.M Sugar Mills Limited


Pooja Dua
(Company Secretary)

GOVERNMENT OF TAMIL NADU
FOREST DEPARTMENT
110 ANNOUNCEMENT SCHEME (2020-21)
 Roc.No.112/2021/D Date: 11.02.2021

SHORT TERM ELECTRONIC TENDER NOTICE

- For details, visit www.tenders.tn.gov.in
- e-Bids are invited by Forest Engineer, Forest Engineering Division, Harur of Tamil Nadu state under Two Cover System for Road works under Forest Department Tribal welfare scheme and 110 Announcement Scheme (2020-21)
- The Bid documents can be downloaded from www.tenders.tn.gov.in on free of cost and it can be downloaded from the date 11.02.2021 to 25.02.2021 - 05.00 PM.
- The Last Date and Time for downloading and submission of e-bid Documents up to 26.02.2021 - 03.00 pm.
- Date and Time of online opening of e-bid documents will be held on 26.02.2021 - 03.30 pm @ Forest Engineer, Forest Engineering Office, Harur

Forest Engineer,
 Forest Engineering Division, Harur
 DIPR/1068/TENDER/2021

NORTHERN RAILWAY
CORRIGENDUM

Ref: (i) Tender Notice No. 45/20-21 dated 02.01.2021 (S.No. 10)
 (ii) Tender No. 08205026 due on 15.02.2021

In reference to above tender, the due date has been extended from (15.02.2021 to 03.03.2021) (Description/specification has been revised). All other terms and conditions remain unchanged. The corrigendum has been published on website www.ireps.gov.in

Dy. CMM/Signal
 330/21

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

FORM NO. 5
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL
 600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow 226007
 (Areas of Jurisdiction : Part of Uttar Pradesh and Uttranchal)

SUMMONS FOR FILING REPLY & APPEARANCE BY PUBLICATION
 No. _____ Date: 08.02.2021

(Summons to Defendant under section 19(3), of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal Procedure Rules 1993)

O. A. No. 1639 of 2019

Punjab National BankApplicant Bank
 (Chander Nagar, Ghaziabad (U.P.)) V/s
 M/s Maa Durga Trading Company & Ors.Defendants To

- M/s Maa Durga Trading Company Through Its Proprietor Shri Rahul Bansal Address : 155, Sihani Gate, Ghaziabad (UP)
- Shri Rahul Bansal S/o Shri Manohar Lal Address : 199, Malwara Bansant Road, Ghaziabad (UP)
- Smt. Jagveeri Bansal (guarantor) W/o Manohar Lal Address : H. No. 7A/9, Nasirpur, Ghaziabad (U.P.)
- Smt. Madhooabala (Guarantor) W/o Narendra Kumar Bansal Address : H.No. 155, Sohanlal Sihani Gate, Ghaziabad (UP)

In the above noted Application, you are required to file reply in Paper Book form in Two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 19.07.2021 at 10.30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar
 Debts Recovery Tribunal Lucknow

NORTHERN RAILWAY
Global Invitation of
"Expression of Interest"

Exploring the availability of system for automatic camber measurement system for monitoring static and dynamic camber and associated field data and real time processing for static and dynamic camber at predetermined points using suitably configured and proven equipment's

Name of work/E.O.I

Cost of Invitation Form 0 (Free of cost)

Date for submission of Invitation Latest by 10.03.2021

Website particulars where complete details of Invitation can be seen & downloaded web site www.nr.indianrailways.gov.in

EOI No: 32-EOI-ACMS-BL-TKJ-2021 Date: 15.02.2021 333/2021
 Serving Customers With A Smile

BUCKINGHAM INDUSTRIES LIMITED
 Regd. Office: C-125, GF LAJPAT NAGAR, NEW DELHI-110024
 (E) buckingham1983@yahoo.com,
 (W) www.buckingham.in
 CIN: L27310DL1983PLC314401.
 Contact : 8522267075

NOTICE

Notice is hereby given that the Board of Directors of the Company at its meeting held on 05th February, 2021 had approved shifting of registered office of the Company from "R-489, GF-D, New Rajinder Nagar, New Delhi Central, Delhi 110060" to "C-125, GF Lajpat Nagar, New Delhi-110024" at 11:30 A.M. w.e.f. 05th February, 2021.

Members/Shareholders are requested to kindly update their contact details, address, mobile no., email etc. with the Company and RTA (Alankit Assignments Limited).

By Order of the Board
 For Buckingham Industries Limited
 Sd/-
 (Sulabh Dikshit)
 Whole-Time Director
 Place: New Delhi Date: 05.02.2021 DIN: 0770194

Apoorva Leasing Finance and Investment Company Limited
 CIN: L74899DL1983PLC016713
 E: apoorvaleasing@finance.com
 W: www.apoorvaleasingfinance.com
 Regd. Office: Third Floor, 13/331, Geeta Colony Delhi-110031. Ph: 011-22446748

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, the 22nd day of February, 2021 at 02:00 PM. at the Corporate Office of the Company inter alia, to consider, approve and take on record the unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended 31st December, 2020, and other business as per agenda.

Equity Shareholders of the company are invited to send their questions/queries, if any, to be discussed with the Board in their ensuing meeting in word file to apoorvaleasing@gmail.com along with your name, address, Folio No./DP ID and Client ID along with number of shares held.

Notice of Board meeting is available on Company's website www.apoorvaleasingfinance.com.

By Order of the Board
 For Apoorva Leasing Finance and Investment Company Limited
 Sd/-
 Pankaj Mishra
 Company Secretary & Compliance officer
 Place: Noida
 Date: 15/ February, 2021

केनरा बैंक Canara Bank
POSSESSION NOTICE

Indira Nagar, C 362, Aravali Marg, Lucknow-226016 (BIC 18482)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the CANARA BANK under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with the Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice on the dates mentioned against each account (details of which have been mentioned hereunder) calling upon the Borrowers to repay the amount mentioned in the notices within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the Authorised Officer has taken possession of the Property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act, read with Rule 8 & 9 of the said rule. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the properties will be subject to the charge of CANARABANK, Branch Indira Nagar, Lucknow for an amount and interest thereon.

S. No.	Name & Address of Borrowers / Guarantor/ A/C No.	Description of the Immovable Property	Outstanding Amount	Date of Demand Notice / Date of Possession Notice
Branch: Indira Nagar, Lucknow				
1	Borrowers: Sh. Laljeet Singh S/o Late Shri Ramchandra Singh Guarantor: Sh. Sarvjeet Singh S/o Late Ram Chandra Singh (Surety).	URM of Land and Building situated at part of Khasra No. 306, Village Bari, Pargana & Tehsil-Rudauli, District Faizabad. Measuring Area: 940 Square Meter (0.094 Hectare) Owner: Shri Laljeet Singh S/o Late Shri Ramchandra Singh. Boundaries: East: Bag Bhat, West: Agriculture plot of Guru Prasad & Others, North: Road Rudauli to Amingari, South: Agriculture plot of Sahavdeen.	Rs. 25,31,560.17 and interest thereon, cost etc.	06.08.2018 09.02.2021

Date: 16.02.2021, Place: Lucknow Authorized Officer, Canara Bank

Central Bank of India
 Regional Office, K. P. Complex, Near Hotel Park Plaza, Ferozepur Road, Ludhiana - 141001

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY/IES)

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Central Bank of India under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of Powers conferred under Section 13(12) read with Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued a Demand Notice on the date mentioned against each account and stated herein below calling upon the borrower(s)/guarantor(s) to repay the amount within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower(s)/guarantor(s) having failed to repay the full amount, notice is hereby given to the borrower(s)/guarantor(s) and public in general that the undersigned has taken possession of the property/ies described herein below in exercise of powers conferred on him/her under 13(4) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002, read with Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

The borrower(s)/guarantor(s) in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property/ies, as mentioned herein below against each account and any dealing with the property will be subject to the charge of Central Bank of India for the amount and interest thereon.

The borrower(s)/guarantor(s) attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset(s).

Name of the Branch, Borrower/Guarantor	Description of Property/ies	Date of Demand Notice	Date of Possession	Amount Outstanding
1. BAGHAPURANA				
Borrower: Mr. Jagdish Rai S/o Mr. Hakumat Rai And Ms. Anjana Rani W/o Mr. Jagdish Rai Guarantor: Mr. Vishnu Kumar S/o Mr. Roshan Lal	Property measuring 02 Marlas -01 bearing Khasra No. 170/5(8-0) as per Kheawat No. 1352 Khatuni no. 1541 as per jamabandi for the year 2012-13, situated at Moga Mehla Singh-2, Moga, District Gurdaspur, Punjab.	27.07.2020	11.02.2021	Rs. 1586201.00 (Rs Fifteen Lakh Eighty Thousand Two Hundred and One only.) along with interest thereon.
2. BAGHAPURANA				
Mr. Joginder Singh S/O Mr. Hakam Singh and Mrs. Pankaj Kaur W/o Joginder Singh Guarantor Mr. Kamaljit S/O Mr. Ved Prakash Bawa	Land measuring 03Marlas-04 bearing Khasra No. 170/5(8-0) as per Kheawat No. 1352 Khatuni no. 1541 bounded as under: East: Veerapal Kaur 40'-0". West: Gurmeet Kaur 40'-0". North: Rasta/Street 18-1/2 feet wide. South: Mastan Singh 24'-0". Owned by Paramjit Kaur W/o Mr. Joginder Singh vide sale deed bearing vasika no. 4481 dated 11.01.2016	07.10.2020	11.02.2021	Rs. 3668141.00 (Rs Thirty Six Lakh Sixty Eight Thousand One Hundred and Forty One only.) along with interest thereon
3. MDAS - MOGA				
M/S Kaler Flour Mills, Prop. Ms. Kamaljit Kaur Guarantor Mr. Parbhajot Singh Kaler S/o Mr. Harneet Singh	Property measuring 25 marlas 8 bearing Khasra no. 148/7(8-0), 8(7-12), 13(1-14), 14(7-11), 17(2-12), kheawat no. 999, khatuani no. 1151 as per jamabandi for the year 2012-2013 situated at Moga Mehla Singh-II, Moga and bounded as under: North: Shinder Pai Singh, South: iqbal singh, East: rasta/ gali, West: avtar singh, Owned by Ms. Kamaljit Kaur vide vasika no. 908 dated 12.05.2016	03.09.2020	11.02.2021	Rs. 1582488.00 (Rs Fifteen Lakh Eighty Two Thousand Four Hundred and Eighty Eight only.) along with interest thereon.

Date: 15.02.2021 Authorized Officer

JMT AUTO LIMITED
 CIN-L42274DL1997PLC270939
 Regd. Office: 3- LS C Pamposh Enclave, Guru Nanak Mrkt, Opp L.S.C Market, New Delhi-110048, Phone: 0657-6626340
 E-mail: jmt.auto@jmtauto.com, Website: www.jmtauto.com

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE & CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/NINE-MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2020

Sl. No.	Particulars	STANDALONE (Rs. in Lakhs)					
		Three Months Ended		Nine Months Ended		Year Ended	
		31-Dec-20	30-Sep-20	31-Dec-19	31-Dec-20	31-Dec-19	31-Mar-20
1	Total Income from operations	3,236.66	3,101.98	3,518.79	7,102.46	14,410.50	17,578.98
2	Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(1,309.97)	(1,223.39)	(1,122.36)	(3,780.93)	(3,106.16)	(4,828.65)
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(1,309.97)	(1,222.07)	(1,122.36)	(3,780.93)	(3,149.45)	(4,871.94)
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(1,423.34)	(1,531.13)	(1,413.88)	(3,575.59)	(3,028.16)	(4,534.85)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	(1,429.53)	(1,534.23)	(1,413.88)	(3,575.59)	(3,028.16)	(4,534.85)
6	Equity Share Capital (Face Value of Rs. 1/- each)	5,038.32	5,038.32	5,038.32	5,038.32	5,038.32	5,038.32
7	Earning per share of Rs. 1/- each - not annualised (for continuing and discontinuing operations): -Basic -Diluted	(0.28) (0.28)	(0.30) (0.30)	(0.28) (0.28)	(0.71) (0.71)	(0.60) (0.60)	(0.90) (0.90)
CONSOLIDATED							
Sl. No.	Particulars	Three Months Ended		Nine Months Ended		Year Ended	
		31-Dec-20	30-Sep-20	31-Dec-19	31-Dec-20	31-Dec-19	31-Mar-20
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from operations	6,760.00	6,293.69	7,176.48	15,836.24	28,125.43	35,062.93
2	Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(1,595.32)	(1,437.29)	(1,924.39)	(4,871.12)	(4,432.09)	(6,644.73)
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(1,594.59)	(1,435.97)	(1,964.67)	(4,867.53)	(4,466.02)	(6,634.08)
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(1,798.10)	(1,698.75)	(2,220.14)	(4,660.89)	(4,234.49)	(6,363.46)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	(1,790.91)	(1,697.77)	(2,205.22)	(4,645.04)	(4,234.49)	(6,335.52)
6	Equity Share Capital (Face Value of Rs. 1/- each)	5,038.32	5,038.32	5,038.32	5,038.32	5,038.32	5,038.32
7	Earning per share of Rs. 1/- each - not annualised (for continuing and discontinuing operations): -Basic -Diluted	(0.36) (0.36)	(0.34) (0.34)	(0.44) (0.44)	(0.92) (0.92)	(0.84) (0.84)	(1.65) (1.65)

Notes :
 The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter/Nine-months ended 31st December, 2020 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Quarterly Financial Results are available on the website of the Company - www.jmtauto.com

For JMT AUTO LIMITED
 Sanjay Tikku
 WT Director
 DIN-300566

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank

General Services Administration Division
 Head Office, Plot No. 4, Sector-10, Dwarka New Delhi-110075
hogad@pnb.co.in; hoinsurance@pnb.co.in

NOTICE FOR SUBMISSION OF BIDS FOR GROUP PERSONAL ACCIDENT INSURANCE POLICY FOR SALARY ACCOUNT HOLDERS OF BANK

PUNJAB NATIONAL BANK invites sealed bids for Renewal of GROUP PERSONAL ACCIDENT INSURANCE POLICY FOR SALARY ACCOUNT HOLDERS OF BANK from the registered General Insurance Companies of India.

For detailed information please visit our website <https://www.pnbIndia.in/Tender.aspx>

Interested General Insurance Companies may submit their bids to the Chief Manager, Punjab National Bank, General Services Administration Division, Head Office, Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi -110075 on or before 01 MARCH 2021 latest by 11:00 AM.

Any corrigendum /Extension of date/ clarification in respect of the above shall be released only at our website <https://www.pnbIndia.in> which may be visited regularly by the intending bidders.

Chief Manager
 (011-28044751)

15.02.2021

SHILPI CABLE TECHNOLOGIES LIMITED - In LIQUIDATION
 CIN No. L64201DL2006PLC150753

E-AUCTION SALE NOTICE

Sale of Assets

- BMW520i Car, Mfg. year 2010, Diesel, Running: 1,19,000 km (approx.)
- Office Furniture and Fixtures at Delhi Office

E-Auction on February 23, 2021 from 2 PM to 3 PM at web portal of: <https://ncltauction.auctiontiger.net>
 Call at +91 8828576197 / +91 9930248351 or Email at sct.lq@gmail.com for more information. Detailed Sale notice uploaded on the website: <https://ncltauction.auctiontiger.net>

For Shilpi Cable Technologies Limited - In Liquidation
 Huzefa Fakhri Sitabkhan
 IBBI/IPA-001/IP-P00031/2017-18/10115
sct.lq@gmail.com; huzefa.sitabkhan@gmail.com

Date: February 16, 2021
 Place: Mumbai

FORM NO. 5
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL
 600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow 226007
 (Areas of Jurisdiction : Part of Uttar Pradesh and Uttranchal)

SUMMONS FOR FILING REPLY & APPEARANCE BY PUBLICATION
 No. _____ Date: 08.02.2021

(Summons to Defendant under section 19(3), of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial institutions Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal Procedure Rules 1993)

O. A. No. 1637 of 2019

Punjab National BankApplicant Bank
 (Chander Nagar, Ghaziabad (U.P.)) V/s
 Smt. PoonamDefendants To

- Smt. Poonam W/o Ravinder R/o 86, Raisenpur-1 (Near Govind Puram) District : Ghaziabad (UP) 2nd Add: Akshay Inclave Village Raisenpur District : Ghaziabad (UP)

In the above noted Application, you are required to file reply in Paper Book form in Two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 19.07.2021 at 10.30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar
 Debts Recovery Tribunal Lucknow

BCL ENTERPRISES LIMITED
 Regd. Off: 510, 5th Floor, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi-110001
 Email: bcjenterprisesitd@gmail.com; Website: www.bcjenterprisesitd.com; Contact No: 011-4308 0469, CIN:L26102DL1985PLC021467

Extract of Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2020

Sl. No.	Particulars	(Rs. In Lakhs except EPS)					
		Quarter ended (Unaudited)		Nine Months Ended (Unaudited)		Year ended (Audited)	
		31/12/2020	30/09/2020	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2019	31/03/2020
1	Total Income from operations	140.08	53.48	14.03	205.27	53.31	65.92
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	388.48	23.51	0.97	425.00	(7.10)	(89.14)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	388.48	23.51	0.97	425.00	(7.10)	(89.14)
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	287.20	19.84	0.97	318.03	(7.10)	(89.84)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] (Refer Note No. 2)	287.20	19.84	0.97	318.03	(7.10)	(89.84)
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/-)	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00
7	Other Equity	0	0	0	0	0	0
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations): Basic: Diluted:	0.49 0.49	0.34 0.34	0.01 0.01	0.54 0.54	(0.12) (0.12)	(1.54) (1.54)

Notes:
 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Un-audited Financial Results for the Quarter and Nine Month Ended 31st December, 2020, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed Quarterly Financial Results are available on the Company's website as well as on stock exchange's website (www.bseindia.com)

2. The Company has adopted Indian Accounting Standard ("Ind AS") from 1st April, 2019 and accordingly these financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the Ind AS 34 "Interim Financial Reporting", prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.

On Behalf of the Board
 For BCL Enterprises Limited
 Sd/-
 Mahendra Kumar Sharda
 (Managing Director)
 DIN : 00053042

HDFC HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD.
 Northern Regn. Office : The Capital Court, Munirka, Outer Ring Road, Olof Palme Marge, New Delhi - 67
 Tel: 011-41115111, CIN L70100MH1977PLC019916, Website: www.hdfc.com

POSSESSION NOTICE

Whereas the Authorised Officer/s of Housing Development Finance Corporation Limited, under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (2) of the said Act, calling upon the following borrower(s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) to pay the amounts mentioned against their respective names together with interest thereon at the applicable rates as mentioned in the said notices, within 60 days from the date of the said Notice/s, incidental expenses, costs, charges etc till the date of payment and / or realisation.

Sl. No.	Name of Borrower (s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s)/ Loan Account Nos.	Outstanding Dues	Date of Demand Notice	Date of Possession	Description of Immovable Property(ies)/Secured Asset(s)
1.	MRS REEMA GOYAL & MR. VINAY GOYAL LOAN ACCOUNT NO. 607730186	Rs. 46,73,151/- (Rupees Forty Six Lakh Seventy Three Thousand One Hundred and Fifty One Only) due as on 30-SEP-19*	17-OCT-2019	11-FEB-2021 (PHYSICAL)	UNIT No. H 203, JAYPEE GREENCREST HOMES H, SECTOR 25, JAYPEE GREENS SPORTS CITY SDZ, YAMUNA EXPRESSWAY, GREATER NOIDA, DISTT-GAUTAM BUDDH NAGAR AND CONSTRUCTION THEREON PRESENT & FUTURE
2.	MR ARVIND SANKATHA SINGH, MR. RAVINDRA SHANKATA SINGH & MRS. ANJALI LOAN ACCOUNT NO. 628778220 & 627109136	Rs. 31,34,588/- (Rupees Thirty One Lakh Thirty Four Thousand Five Hundred and Eighty Eight Only) due as on 30-JUN-2020*	07-JULY-2020	11-FEB-2021 (SYMBOLIC)	FLAT No H -1405, 14TH FLOOR, TOWER H, STELLAR JEEVAN, PLOT NO GH-03, SECTOR 1, GREATER NOIDA, UTTAR PRADESH WITH UNDIVIDED PROPORTIONATE SHARE OF LAND UNDERNEATH
3.	MR DEBASISH SEN LOAN ACCOUNT NO. 627739772 & 626649918	Rs. 95,01,202/- (Rupees Ninety Five Lakh One Thousand Two Hundred and Two Only) due as on 31-JULY-2020*	31-AUG-2020	12-FEB-2021 (SYMBOLIC)	FLAT No.1002, 10th FLOOR, TOWER A1, MAPSKO CASA BELLA, SECTOR 82, GURGAON HARYANAWITH UNDIVIDED PROPORTIONATE SHARE OF LAND UNDERNEATH

*with further interest as applicable, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and / or realisation.

However, since the borrowers mentioned hereinabove have failed to repay the amounts due, notice is hereby given to the borrowers / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) mentioned hereinabove in particular and to the public in general that the Authorised Officer of HDFC has taken **physical possession** of the immovable properties / secured assets described herein above as mentioned in serial no. 1 and **symbolic possession** of the immovable properties / secured assets described herein above as mentioned in serial no. 2 & 3 in exercise of powers conferred on him under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned above.

The borrower(s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) mentioned hereinabove in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the aforesaid Immovable Property (ies) / Secured Asset(s) and any dealings with the said Immovable Property (ies) / Secured Asset(s) will be subject to the mortgage of Housing Development Finance Corporation Ltd.

Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) attention is/are invited to the provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset(s).

Copies of the Panchnama drawn and inventory made are available with the undersigned, and the said Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) is / are requested to collect the respective copy from the undersigned on any working day during normal office hours.

For Housing Development Finance Corporation Ltd.
 Sd/-
 Regd Office: Ramon House, H.T. Parekh Marg, 169, Backbay Reclamation, Churchgate Mumbai-400 020 Authorized Officer

K M SUGAR MILLS LIMITED
 Regd. Office: 11-Moti Bhavan, Collector Ganj, Kanpur-208001(U.P.)
 Corp. Office: 76-Eldeco Green, Gomi Nagar, Lucknow-226010(U.P.)
 CIN No. : L15421UP1971PLC003492, Website : www.kmsugar.com
 E-mail:- kmsugar@gmail.com Phone : 0512-2310762, 0522-4079561

NOTICE

Notice is hereby given that the 02nd Extra-Ordinary General Meeting of the Company will be held Wednesday 10th March, 2021 at 11:00 AM held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAV") to transact the businesses set out in the notice dated 11th